

विवरण

1. बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न

Msmemart.com पर सत्यापित सदस्य कौन/क्या हैं?

सत्यापित सदस्य Msmemart.com पर एक नई विशेषता सुविधा है, जहां आपूर्तिकर्ताओं को एनएसआईसी के कर्मचारियों द्वारा सत्यापित किया जाता है।

सत्यापित सदस्य और उनके साथ व्यापार करने के लाभ

Msmemart.com, दो प्रकार के सदस्यों को दर्शाता है :- विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता और प्रीमियम गोल्ड सत्यापित आपूर्तिकर्ता प्रदर्शित करता है, सभी सत्यापित सदस्यों का वैध कंपनी और खाता के ब्योरे होना सुनिश्चित किया जाता है।

गोल्ड मेंबर कैसे बने ?

6000/- रुपये प्लस जीएसटी शुल्क की नाममात्र धनराशि का भुगतान करके कंपनी पोर्टल की सत्यापित गोल्ड मेंबर बन सकती हैं।

बी 2 बी पोर्टल की विशेषताएं क्या हैं ?

- क. मिनटों में अपनी कंपनी का वेबपेज बनाए
- ख. 24X7 उत्पाद एवं सेवाएं प्रदर्शित करे
- ग. खरीदारों तथा आपूर्तिकर्ताओं के साथ वैश्विक रूप से जुड़े
- घ. इवेंट्स और प्रदर्शनियों से जुड़ी जानकारी
- ङ. कीवर्ड आधारित असीमित टेंडर अलर्ट्स
- च. फ्रैंचाइजी और डिस्ट्रीब्यूटरशिप के अवसर
- छ. कोटेशन के लिए अनुरोध
- ज. ट्रेड लीड्स
- झ. पुरानी मशीनों की खरीद और बिक्री के लिए एक मंच
- ञ. पोर्टल की सेवाएं कई भाषाओं में उपलब्ध हैं
- ट. अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमियों के लिए एक वर्ष के लिए निःशुल्क सदस्यता

अपोलो कार्ड की विशेषताएं क्या हैं?

http://msmemart.com/page/apollo_facility पर देखें।

मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ?

- भारत का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन बाजार है जो एक साथ कई व्यवसायों को एक ही मंच पर उत्पादों और सेवाओं को खरीदने, बेचने या तुलना करने का अवसर प्रदान करता है।
- आपके व्यवसाय को वैश्विक रूप से बढ़ाने तथा सहायता करने में आपकी अनन्य रूप से आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यवसाय सेवाओं की एक व्यापक रेंज बनाई गई है और उपलब्ध कराई है।

क्रेता के रूप में, मैं पोर्टल पर क्या कर सकता हूँ?

एक क्रेता के रूप में आप अपनी हर आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्यमक्ता का स्वामित्व प्राप्त कर सकते हैं:-

- अपनी खरीद आवश्यकताओं को पोस्ट करें और बिक्री करने में रुचि रखने वाले क्रेताओं द्वारा आपसे संपर्क किया जाएगा
- विशेष प्रस्तावों का लाभ उठाएं और उद्योगों के एक विस्तृत क्षेत्र के विक्रेताओं द्वारा पोस्ट किए गए विशेषता प्राप्त उत्पादों का लाभ प्राप्त करें

टेंडर सेक्शन क्या है ?

यह एक अधिसूचना सेवा है, जो MSME mart पोर्टल का भाग है। जो आपको सरकारी एजेंसियों (केंद्र और राज्य) उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र, स्वायत्त निकायों द्वारा जारी की गई निविदाओं पर अद्यतन सूचनाओं से अवगत कराता है।

मैं पोर्टल में निविदा सूचनाएँ कैसे और कहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ?

इस्तमाल में आसानी के लिए, सभी निविदाओं को राज्य सरकार द्वारा जारी की निविदा, उद्योग आधारित निविदा, मूल्य आधारित निविदा और संदर्भ संख्या आधारित निविदा में विभाजित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति आसानी से इस यूआरएल <http://www.msmemart.com/tenderindex-Tenders.html> पर जाकर समझ सकता है। इसके अलावा, निविदाओं के बारे में अधिसूचना आपके पंजीकृत ई-मेल पर भेजी जाती है।